

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 15—जुलाई 21, 2017 (आषाढ़ 24, 1939)

No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 15—JULY 21, 2017 (ASADHA 24, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 2017

(सेना शाखा)

सं. 123, दिनांक 18 मई 2017—राष्ट्रपति महोदय यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन 05 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :-

नियमित सेना

अल्पकालीन आयोग

कप्तान के पद पर (परख पर)

कप्तान रागिनी थापा एम एस 17950 एल कमीशन की तिथि-24.06.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 24.06.2012 से दी जाएगी। इसमें 36 महीने स्नातकोत्तर योग्यता डॉक्टर ऑफ मेडिसीन (पैथोलॉजी) के लिए हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 24.06.2012 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान दिव्यश्री जी एन एम एस-18058-ए कमीशन की तिथि 04.08.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 04.02.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 04.02.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान अनुज जाखड़ एम एस-17887-एफ कमीशन की तिथि 10.07.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 10.01.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 10.01.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान अरशदीप सिंह एम एस-17537-पी कमीशन की तिथि 01.11.2014

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 01.05.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 01.05.2014 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान मुजीर शरीफ मोल्ला एम एस-17681-के कमीशन की तिथि 23.06.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 23.12.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 23.12.2014 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान अरुण आर एम एस-18021-वाई कमीशन की तिथि 25.08.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 25.02.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 25.02.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान एश्वर्या जेसी कौर एम एस 18056-पी कमीशन की तिथि 15.07.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 15.07.2012 से दी जाएगी। इसमें स्नातकोत्तर योग्यता एम डी (प्रसूति एवं स्त्री रोग) के लिए 36 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी तथा नोशनल वरिष्ठता 15.07.2012 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान माथुर प्रखरकुमार परजकुमार एम एस-18067-एफ कमीशन की तिथि 10.01.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 10.07.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 10.07.2014 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान अतुल गुप्ता एम एस 18074-एक्स कमीशन की तिथि 19.08.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 19.08.2012 से दी जाएगी। इसमें स्नातकोत्तर योग्यता एम एस (नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ) के लिए 36 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी) तथा नोशनल वरिष्ठता 19.08.2012 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान शिशिर कुमार एम एस 17970-वाई कमीशन की तिथि 08.07.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 08.07.2012 से दी जाएगी। इसमें स्नातकोत्तर योग्यता एम एस (जनरल सर्जरी) के लिए 36 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी) तथा नोशनल वरिष्ठता 08.07.2012 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान हेमन्त सिंह चाहर एम एस 17471-के कमीशन की तिथि 10.01.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 10.01.2012 से दी जाएगी। इसमें स्नातकोत्तर योग्यता एम एस (अस्थिरोग विशेषज्ञ) के लिए 36 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी) तथा नोशनल वरिष्ठता 10.01.2012 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान पिकेश कुमार यादव एम एस-17793-के कमीशन की तिथि 19.08.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 19.02.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 19.02.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान संबित पात्रा एम एस-18191-एच कमीशन की तिथि 27.06.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 27.12.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 27.12.2014 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान अतुल खुल्लर एम एस-17059-डब्लू कमीशन की तिथि 12.02.2013

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 12.08.2012 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 12.08.2012 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान विनय कुमार एम एस 17995-एल आयोग की तिथि 08.08.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 08.08.2013 से दी जाएगी। इसमें 24 महीने स्नातकोत्तर योग्यता बल्याचिकित्सा में डिप्लोमा के लिए पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 08.08.2013 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान अतुल बिशनोई एम एस-17940-एफ कमीशन की तिथि 23.06.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 23.12.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 23.12.2014 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान कपिल कुमार एम एस-17624-एच कमीशन की तिथि 01.11.2014

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 01.05.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 01.05.2014 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान वी राजेश रेड्डी एम एस-17491-एक्स कमीशन की तिथि 11.01.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 11.07.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 11.07.2014 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान श्रीनू अरेकान्ति एम एस-17821-एल कमीशन की तिथि 06.08.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 06.02.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 06.02.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान निकित मूर्ति एम एस-17260-एफ कमीशन की तिथि 19.10.2013

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 19.04.2013 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 19.04.2013 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्ला. लेफ्टिनेंट के पद पर (परख पर)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट फातिमा सयिदा समीम, (एमएस-17897 एल) (एएफ-34398-के) (एक्स एमएस-13947एन), ए.एम.सी.कमीशन की तिथि 02.07.2015, वेतन एवम पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 02.01.2007 से परभावि होगी जिसमें कुल सेवा 08 वर्ष 06 महीने (05 वर्ष उनकी पिछली पूर्ण वेतन कमीशन सेवा के और 03 वर्ष पीजी डिग्री (एम एस इ एन टी) और 06 महीने अस्पताल नियुक्ति के लिये पूर्व-दिनांक वरिष्ठता शामिल हैं) जो कि उपादान के लिये नहीं गिनी जायगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

सर्जन लेफ्टिनेंट के पद पर (परख पर)

सर्जन लेफ्टिनेंट श्रीनिवास आर एम एस 18194-डब्लू (76275-ए) आयोग की तिथि 01.11.2014

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 01.05.2012 से दी जाएगी। इसमें 30 महीने (24 महीने बधिरकरणशास्त्र में स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं 06 महीने अस्पताल नियुक्ति) के लिए पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 01.05.2012 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

आर के रान्याल

एयर वाइस मार्शल

अपर महानिदेशक स से चि से (मा.स.)

सेना शाखा

सं. 124, दिनांक 19 मई 2017—राष्ट्रपति महोदय यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन 05 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :-

नियमित सेना

अल्पकालीन आयोग

कप्तान के पद पर (परख पर)

कप्तान सौमिता कर एम एस 17905-वाई कमीशन की तिथि-23.06.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 23.12.2011 से दी जाएगी। इसमें 36 महीने स्नातकोत्तर योग्यता डॉक्टर ऑफ मेडिसीन (बधिरकरणशास्त्र) के लिए एवं 06 महीने हस्पताल नियुक्ति के लिए पहले से दी गई वरिष्ठता

शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 23.12.2011 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान रितु राज एम एस-17687-एल कमीशन की तिथि 23.06.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 23.12.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 23.12.2014 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान अनुभव उपाध्याय एम एस-17528-एन कमीशन की तिथि 01.11.2014

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 01.05.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 01.05.2014 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान संजीव कुमार एम एस-17546-डब्लू कमीशन की तिथि 01.11.2014

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 01.05.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 01.05.2014 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान नैना तमता एम एस-17790-डब्लू कमीशन की तिथि 11.08.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 11.02.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 11.02.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान शेखर दत्त बाजपेयी एम एस-17725-डब्लू कमीशन की तिथि 07.07.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 07.01.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 07.01.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान दिलीप एम एम एस-17553-एम कमीशन की तिथि 01.11.2014

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 01.05.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 01.05.2014 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान मानवेन्द्र सिंह रावत एम एस 17734-एक्स आयोग की तिथि 16.07.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 16.01.2012 से दी जाएगी। (इसमें पैथोलॉजी में परास्नातक के लिए 36 महीने एवं अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने) 42 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी तथा नोशनल वरिष्ठता 16.01.2012 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान गौरव मिश्रा एम एस-17900-ए कमीशन की तिथि 04.08.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 04.02.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 04.02.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान फ़राज़ हैदर एम एस-17919-वाई कमीशन की तिथि 21.07.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 21.01.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 21.01.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान सब्यसाची सेन एम एस-17760-वाई कमीशन की तिथि 30.06.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 30.12.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 30.12.2014 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान सुवर्ण कला मोका एम एस-17771-एल कमीशन की तिथि 23.06.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 23.12.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 23.12.2014 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान जी विश्वनाथ एम एस-17709-वाई कमीशन की तिथि 27.06.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 27.12.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 27.12.2014 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान जी साई नाथ राम एम एस-17425-पी कमीशन की तिथि 01.11.2014

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 01.05.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 01.05.2014 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान भदोरिया अंकुशसिंह तेकसिंह एम एस-17680-एफ कमीशन की तिथि 23.06.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 23.12.2014 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 23.12.2014 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान अजय पंडिता एम एस 17931-ए कमीशन की तिथि 23.06.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 23.06.2012 से दी जाएगी। इसमें स्नातकोत्तर योग्यता एम डी (मेडिसिन) के लिए 36 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी तथा नोशनल वरिष्ठता 23.06.2012 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान लिवतार सिंह एम एस-17854-डब्ल्यू कमीशन की तिथि 18.08.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 18.02.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 18.02.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान अंकुश गुप्ता एम एस-17813-एम कमीशन की तिथि 05.08.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 05.02.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 05.02.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान नितेश कुमार यादव एम एस-17847-ए कमीशन की तिथि 14.08.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 14.02.2015से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 14.02.2015से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान दीपक भारद्वाज एम एस-17803-एच कमीशन की तिथि 04.08.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 04.02.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 04.02.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान राहुल सिंह एम एस-18029-एल कमीशन की तिथि 01.07.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 01.01.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 01.01.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान मनोज राजे एम एस 17449-वाई आयोग की तिथि 01.11.2014

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 01.11.2012 से दी जाएगी। इसमें 24 महीने स्नातकोत्तर योग्यता बध्तिरीकरणशास्त्र में डिप्लोमा के लिए पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 01.11.2012 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान दिवटे सुनील उमाकांत एम एस 17740-एल कमीशन की तिथि 12.08.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 12.02.2012 से दी जाएगी। इसमें 36 महीने स्नातकोत्तर योग्यता डॉक्टर ऑफ मेडिसीन (कम्युनिटी मेडिसिन) के लिए एवं 06 महीने हस्पताल नियुक्ति के लिए पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 12.02.2012 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान शिवानी एम एस-17845-पी कमीशन की तिथि 14.08.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 14.02.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 14.02.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान लक्ष्मी एस बाबु एम एस-17795-पी कमीशन की तिथि 22.09.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 22.03.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 22.03.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान अनुपम शर्मा एम एस 18049-वाई कमीशन की तिथि 29.09.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 29.09.2012 से दी जाएगी। इसमें स्नातकोत्तर योग्यता (पथोलोजी) के लिए 36 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी तथा नोशनल वरिष्ठता 29.09.2012 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान सिमरनदीप सिंह एम एस-18007-एम कमीशन की तिथि 17.08.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 17.02.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 17.02.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान अजय कुमार एम एस 17531-एन आयोग की तिथि 01.11.2014

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 01.05.2011 से दी जाएगी। इसके लिए 36 महीने स्नाकोत्तर एम डी(जेनरल मेडिसिन) और 06 महीने अस्पताल नियुक्ति डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आधार पर पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी तथा नोशनल वरिष्ठता 01.05.2011 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान कुलदीप कुमार शर्मा	एम एस-16668 एन	ए एम सी	15.06.2010
कप्तान शिखा कुँवर	एम एस - 18059 एच	ए एम सी	04.08.2015
कप्तान भास्कर ज्योति देउरी	एम एस - 18073 पी	ए एम सी	18.08.2015
कप्तान दिनेश भोले	एम एस - 18084 एफ	ए एम सी	11.03.2016
कप्तान रजनी	एम एस - 17818 एल	ए एम सी	05.08.2015
कप्तान सीनु अरेकान्ति	एम एस - 17821 एल	ए एम सी	06.08.2015
कप्तान अशोक कुमार	एम एस - 18031 एच	ए एम सी	04.07.2015
कप्तान सागर मित्तल	एम एस - 18032 एल	ए एम सी	09.07.2015
कप्तान सिंह योगेश नारायण	एम एस - 18033 एन	ए एम सी	10.07.2015
कप्तान बिकरमजीत सिंह	एम एस - 18038 एम	ए एम सी	04.08.2015
कप्तान सतेन्दर मलिक	एम एस - 18040 के	ए एम सी	05.08.2015

कप्तान शक्ति डागर	एम एस - 18092 ए	ए एम सी	14.03.2016
कप्तान पूर्वा शर्मा	एम एस - 18095 एन	ए एम सी	15.03.2016
कप्तान एस नवीन रेड्डी	एम एस - 18100 एन	ए एम सी	17.03.2016
कप्तान अरुण कुमार मरलापुडी	एम एस - 17729 एम	ए एम सी	09.07.2015
कप्तान शेरवेगार राजदीप प्रभाकर	एम एस - 17864 ए	ए एम सी	13.08.2015
कप्तान मोहित वाधवा	एम एस - 18020 डब्ल्यू	ए एम सी	22.08.2015
कप्तान भिरुड अतुल राजेश	एम एस - 18023 के	ए एम सी	25.09.2015
कप्तान दस्तूरे स्वप्निल सुधाकरराव	एम एस - 18024 एम	ए एम सी	14.07.2015
कप्तान अनूप शर्मा	एम एस - 18039 पी	ए एम सी	04.08.2015
कप्तान सौम्य सिद्ध चक्रबोर्ती	एम एस - 18064 एन	ए एम सी	12.09.2015
कप्तान मोहनीश पांडे	एम एस - 17747 पी	ए एम सी	04.02.2015
कप्तान लिली स्वेन	एम एस - 17849 एल	ए एम सी	15.08.2015
कप्तान पाटील किरण नामदेव	एम एस - 17865 एच	ए एम सी	13.08.2015
कप्तान नीरज कुमार	एम एस - 17867 एन	ए एम सी	18.08.2015
कप्तान अजय कुमार सक्सेना	एम एस - 18028 एच	ए एम सी	27.06.2015
कप्तान लक्षय माधरा	एम एस - 18070 एफ	ए एम सी	07.07.2015
कप्तान धनवाड़े सचिन नारायण	एम एस - 18078 एन	ए एम सी	09.03.2016
कप्तान राघवेंद्र हुच्यन्नवर	एम एस - 18203 एम	ए एम सी	18.08.2015
कप्तान ज्ञानवेल एन	एम एस - 17389 पी	ए एम सी	19.10.2013
कप्तान अरिवरसन एस	एम एस - 17676 वाई	ए एम सी	23.06.2015
कप्तान ललित मीसला	एम एस - 17704 ए	ए एम सी	26.06.2015
कप्तान श्रवणकुमार वी	एम एस - 17713 एफ	ए एम सी	30.06.2015
कप्तान पोटनुरी एल वेंकटा उदय	एम एस - 17794 एम	ए एम सी	29.08.2015
कप्तान दुम्मु गोपि कृष्ण	एम एस - 17827 एम	ए एम सी	07.08.2015
कप्तान धाडूवै स्मरण कल्याण	एम एस - 17856 एफ	ए एम सी	18.08.2015
कप्तान स्मृति पॉल	एम एस - 17801 एक्स	ए एम सी	04.08.2015
कप्तान राजेंद्र कुमार जाट	एम एस - 17895 ए	ए एम सी	19.07.2015
कप्तान अभिजित कुमार सिंह	एम एस - 17951 एन	ए एम सी	24.06.2015
कप्तान कोडगिरे पंकज पांडुरंगराव	एम एस - 17966 डब्ल्यू	ए एम सी	06.07.2015
कप्तान प्रियंका चौधरी	एम एस - 18057 एक्स	ए एम सी	20.07.2015
कप्तान अंतरिक्ष शर्मा	एम एस - 18066 वाई	ए एम सी	22.09.2015
कप्तान अमित कुमार साहू	एम एस - 18089 ए	ए एम सी	12.03.2016
कप्तान अन्बरासन जी	एम एस - 18094 एल	ए एम सी	15.03.2016
कप्तान जेतेंदर सिंह राठौर	एम एस - 18118 के	ए एम सी	22.03.2016
कप्तान ऋषिकेश प्रसाद शा	एम एस - 18200 वाई	ए एम सी	11.08.2015

कप्तान शमा परवीन	एम एस - 18202 के	ए एम सी	15.08.2015
------------------	------------------	---------	------------

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट के पद पर (परख पर)

1	फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट दिनोय चंद्रन आर	<u>एम एस-17927 एक्स</u> (ए एफ-34795 एच)	ए एम सी	12.08.2015
2	फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट बयिल्स ए माथ्युस	<u>एम एस-17962 ए</u> (ए एफ-34750 एच)	ए एम सी	02.07.2015
3	फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट सफकत जलील	<u>एम एस-17963 एच</u> (ए एफ-34751एल)	ए एम सी	02.07.2015
4	फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट गुंजन उपाध्याय	<u>एम एस-17972 के</u> (AF-34772 जी)	ए एम सी	10.07.2015
5	फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट वैभव साडीवाल	<u>एम एस-17973 एम</u> (ए एफ-34774 एन)	ए एम सी	10.07.2015
6	फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट आवारिवार महेश देवराव	<u>एम एस-18000 एच</u> (ए एफ-34796 एल)	ए एम सी	12.08.2015
7	फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट एन मधु	<u>एम एस-18005 एफ</u> (ए एफ-34800 एच)	ए एम सी	14.08.2015
8	फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट राउत विनोद विलास	<u>एम एस-18026 एक्स</u> (ए एफ-34813 एफ)	ए एम सी	20.10.2015
9	फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट साक्षी बंसल	<u>एम एस-18047 एन</u> (ए एफ-34807 एन)	ए एम सी	18.08.2015
1	फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट प्रियंक झिंगन	<u>एम एस - 17934 एन</u> (ए एफ - 34766 आर)	ए एम सी	23.06.2015
2	फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट गणेश किसन मानमोडे	<u>एम एस - 17947 एल</u> (ए एफ - 34762 ए)	ए एम सी	24.06.2015
3	फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट हर्मेश्वर सिंह	<u>एम एस - 17948 एन</u> (ए एफ - 34768 बी)	ए एम सी	24.06.2015
4	फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट मैनाक चंद्र दास	<u>एम एस - 17958 एक्स</u> (ए एफ - 34757 एन)	ए एम सी	30.06.2015
5	फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट नवजोत सिंह सिधु	<u>एम एस - 17976 ए</u> (ए एफ - 34773 के)	ए एम सी	14.07.2015
6	फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट विवेक उज्ज्वल	<u>एम एस -17979 एन</u> (ए एफ -34778 एच)	ए एम सी	15.07.2015
7	फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट अजिन अनटो ए के	<u>एम एस -17993 ए</u> (ए एफ -34788 एन)	ए एम सी	06.08.2015
8	फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट गगनदीप सिंह भट्टी	<u>एम एस -17997 डब्ल्यू</u> (ए एफ -34791एन)	ए एम सी	11.08.2015
9	फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट शैफु पुलानी	<u>एम एस -18001 एल</u> (ए एफ -34798 टी)	ए एम सी	13.08.2015

सर्जन लेफ्टिनेन्ट के पद पर (परख पर)

1	सर्जन लेफ्टिनेन्ट गेदाम मयुरी विजयकुमार	एम एस - 16644 के (76096-डब्ल्यू)	ए एम सी	15.06.2010
1	सर्जन लेफ्टिनेन्ट जोगेश आहूजा	एम एस - 18012 एक्स (76326-टी)	ए एम सी	08.09.2015

सर्जन लेफ्टिनेन्ट शेजले नवीन अशोक एम एस 17525-ए (76278-एच) कमीशन की तिथि 01.11.2014

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 01.11.2011 से दी जाएगी। इसमें स्नातकोत्तर योग्यता (अस्थिरोग विशेषज्ञ) के लिए 36 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी तथा नोशनल वरिष्ठता 01.11.2011 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

सर्जन लेफ्टिनेन्ट सुनिश् जकरिया एम एस 17937-एफ (76310-एफ) कमीशन की तिथि 23.06.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 23.06.2012 से दी जाएगी। इसमें स्नातकोत्तर योग्यता एम एस (अस्थिरोग विशेषज्ञ) के लिए 36 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी तथा नोशनल वरिष्ठता 23.06.2012 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

सर्जन लेफ्टिनेन्ट अनामिका आहूजा एम एस-18195-वाई कमीशन की तिथि 18.07.2015

को वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 18.01.2015 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई वरिष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी, तथा नोशनल वरिष्ठता 18.01.2015 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

राष्ट्रपति महोदय यथा संशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन 7 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:-

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा)

फ्लाईंग ओफिसर के पद पर (परख पर)

1	फ्लाईंग ओफिसर आदिल निशात	एम एस-17581 वाई (ए एफ-34099 एल)	ए एम सी	18.03.2015
2	फ्लाईंग ओफिसर हर्ष होलानी	एम एस-17582 एफ (ए एफ-34100 एस)	ए एम सी	18.03.2015
3	फ्लाईंग ओफिसर मनीष कुमार शुक्ला	एम एस-17593 एन (ए एफ-34389 एच)	ए एम सी	18.03.2015

4	फ्लाईंग ओफिसर अमर कुमार गौतम	एम एस-17594 दब्लियु (ए एफ-34390 ए)	ए एम सी	18.03.2015
5	फ्लाईंग ओफिसर आयुष माथुर	एम एस-17595 वाई (ए एफ-34391एफ)	ए एम सी	18.03.2015
6	फ्लाईंग ओफिसर अमर प्रकाश अहिरवार	एम एस-17596 एफ (ए एफ-34392 एच)	ए एम सी	18.03.2015

बी श्रीधर
ब्रिगेडियर
उपमहानिदेशक (मा.सं.)

सेना शाखा

सं. 125, दिनांक 22 मई 2017—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारीयों को परख अवधि पूरा होने पर पुष्टि करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी आयोग

सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी)

क्रम संख्या	व्यक्तिगत संख्या	पद	नाम	आयोग की तिथि
(ए)	एन टी आर 16893-एच	लेफ्टिनेंट	समीर छेत्रि	09 अप्रैल 2014
(बी)	एन टी आर 16894-एल	लेफ्टिनेंट	राकेश चंदर	09 अप्रैल 2014
(सी)	एन टी आर 16895-एन	लेफ्टिनेंट	संजीव वाघमोरे	09 अप्रैल 2014
(डी)	एन टी आर 16896-डब्ल्यू	लेफ्टिनेंट	गुलाम हुसैन अंसारी	09 अप्रैल 2014
(ए)	एन टी एस-17639एल	लेफ्टिनेंट	सुरिंदर सिंह	06 अप्रैल 2015
(बी)	एन टी एस-17640ए	लेफ्टिनेंट	गजेंद्र सिंह	06 अप्रैल 2015
(सी)	एन टी एस-17641एच	लेफ्टिनेंट	जगतार सिंह	06 अप्रैल 2015
(डी)	एन टी एस-17642एल	लेफ्टिनेंट	उदय कुमार जे	06 अप्रैल 2015
(इ)	एन टी एस-17643एन	लेफ्टिनेंट	सुदिप्तो मंडल	06 अप्रैल 2015

बी श्रीधर
ब्रिगेडियर
उपमहानिदेशक (मा.सं.)

सेना शाखा

सं. 126, दिनांक 23-मई 2017—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारीयों को पदोन्नति करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी आयोग

सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी)

मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर

व्यक्तिगत संख्या	पद	नाम	पदोन्नति की तिथि
एन टी आर-16755-एफ	मेजर	लैशराम देबान सिंह	31 अक्टूबर 2015

अल्पकालिक सेवा कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा

मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर

एमएस-15035एन	मेजर	रमन मल्ही	12.04.2016
एमएस-15010एफ	मेजर	मुकेश कुमार	12-04-2016
एम एस-14950ए	मेजर	अनिल कुमार गुप्ता	12.04.2016
एम एस-14979एच	मेजर	मनीष बंसल	12.04.2016
एम एस-14996एच	मेजर	रवीन्द्र कुमार	12.04.2016
एम एस-15031एक्स	मेजर	मनोज कुमार सिंह	12.04.2016
एम एस-15040वाई	मेजर	कीर्तिभूषण	12.04.2016
एम एस-15043एम	मेजर	दया नाथ झा	12.04.2016
एम एस-17135एक्स	मेजर	प्रियंका अरोरा	18.04.2016
एम एस-15138एम	मेजर	नवरतन सिंह राठौर	16-06-2016
एम एस-14878पी	मेजर	स्वीन बैंगर	10-08-2016
एम एस-15195एन	मेजर	नीरजा	20-07-2016
एम एस-15110एम	मेजर	सुधीर	20-07-2016
एम एस-15218के	मेजर	सरजीत सिंह यादव	20-07-2016
एम एस-15003एल	मेजर	नवीन कुमार शर्मा	12-04-2016

स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर के पद पर

एम एस-14906डब्ल्यू (ए एफ-27666F)	विंग कमांडर	सुवास शाहू	04 जून 15
एम एस-15552एल (ए एफ-28904आर)	विंग कमांडर	सफिया अहमद	17 अप्रैल 15
एम एस 14843वाई (एएफ27653एच)	स्क्वाड्रन लीडर	डोडामणी दिवाकर	27.07.2015
एम एस14907वाई (एएफ27665ए)	स्क्वाड्रन लीडर	ज्योति लक्ष्मी दहत	04-12-2015

सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर से सर्जन कमांडर के पद पर

एमएस-15051एल (75891बी)	सर्जन कमांडर	अंजली पाण्डेय	12-04-2016
एम एस-16069-एन (76004-के)	सर्जन लेफ्टिनेंट	शिवाजी शंकर घोष	26-08-2016

स्थायी आयोग
सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी)
कप्तान से मेजर के पद पर

क्रम संख्या	व्यक्तिगत संख्या	पद	नाम	पदोन्नति की तिथि
(ए)	एन टी आर-16839 पी	कप्तान	बलजिंदर सिंह	07 अप्रैल 2016

अल्पकालिक सेवा कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा

कप्तान से मेजर के पद पर

एम एस-15801 वाई	कप्तान	प्रभात चतुर्वेदी	25-04-2012
एम एस-16220एन	कप्तान	मो. इमतियाज अहमद	11-08-2013
एम एस-16752एन	कप्तान	पल्लवी ममगाई	31-01-2014
एम एस-17118-एक्स	कप्तान	तन्डेल कुन्दनकुमार उत्तमभाई	21-09-2013
एम एस-17021एम	कप्तान	नरेन्द्र शर्मा	17-05-2016
एम एस-16177-एक्स	कप्तान	रिजेष कुमार	11-08-2013
एम एस-16769-एफ	कप्तान	मास्टर जिककी	26-02-2016
एम एस-16969-एक्स	कप्तान	देवत्रेय पाल	21-03-2016
एम एस-16688-एफ	कप्तान	श्रीदेवी थापा	15-12-2013
एम एस-16935-के	कप्तान	रविन्द्र सिंह	15-03-2016
एम एस -17406-के	कप्तान	सुमीना बसंदरा	01-11-2015
एम एस-16768-वाई	कप्तान	संगीत कुमार	26-02-2016
एम एस-16792-पी	कप्तान	मनु तिवारी	26-02-2016
एम एस-16789-पी	कप्तान	बिष्णू राज	26-02-2016
एम एस-15266-के	कप्तान	अनीश कुमार अदया	20-02-2011
एम एस-16585-एच	कप्तान	सतवीर सिंह चौधरी	15-06-2014
एम एस-16652-एच	कैप्टन	विठ्ठल भुजन्नावर	15-06-2014
एम एस-16780-ए	कप्तान	निरंजन साहू	26-02-2016
एम एस-16757-एम	कप्तान	अनुज माथुर	19-08-2014
एम एस-16766-एन	कप्तान	सुब्रत कुमार दस	26-02-2016
एम एस-16767-डब्ल्यू	कप्तान	विगनेश एस	26-02-2016
एम एस-16770-डब्ल्यू	कप्तान	राज कृष्णा यादव	26-02-2016

एम एस-16772-एफ	कप्तान	अंशुल मीणा	26-02-2016
एम एस-16774-एम	कप्तान	वी कृष्णा नारायणन नायनार	26-02-2016
एम एस-16779-एल	कप्तान	वरुण दीप मान	26-02-2016
एम एस-16782-एल	कप्तान	अंचल अवस्थी	26-02-2016
एम एस-16786-एफ	कप्तान	तपस रंजन बिसोई	26-02-2016
एम एस-16790-के	कप्तान	रतन कुमार सदानगी	26-02-2016
एम एस-16794-ए	कप्तान	डी रवि	26-02-2016
एन एस -16258-एक्स	कप्तान	कार्तिकेय आर सिंह	20-02-2013
एम एस-16403-के	कप्तान	सुमित लवानिया	30-12-2013
एम एस-16797-एन	कप्तान	नगमा जसवाल	07-08-2016
एम एस - 17061-एन	कप्तान	अजीत कुमार	12-08-2016
एम एस-16971-पी	कप्तान	सुभाष चन्द्र	21-09-2016
एम एस-16463वाई	कप्तान	राकेश शर्मा	08-01-2014
एम एस-16122एन	कप्तान	मुर्तजा अहमद खान	28-01-2013
एन एस -17039-एच	कप्तान	वर्तिका गुप्ता	29-06-2016
एम एस-17741-एन	कप्तान	खनापुरे अमोल विजय	12-08-2016
एम एस-16246एच	कप्तान	नंदागावे धीरज जंबुकुमार	18-08-2013
एम एस-16632पी	कप्तान	सिद्धार्थ शंकर सिंह	15-06-2014
एन एस - 16970एम	कप्तान	जानेन्द्र सिंह भदौरिया	21-09-2016
एम एस-16995वाई	कप्तान	पाटिल प्रदन्य प्रहलाद	21-09-2016
एम एस-17004एम	कप्तान	चंद्रचूड मंदर विलास	06-11-2013
एम एस-16564एम	कप्तान	ए विनय डोरा	24-07-2015
एन एस -16965 एफ	कप्तान	के हरीश	21-09-2016
एम एस - 16802 एन	कप्तान	पंकज शर्मा	07-08-2016
एम एस-16974एच	कप्तान	अक्षेय शुक्ला	21-09-2016
एम एस - 16993 एन	कप्तान	मुल्लानी परवेज़ शब्बीर	21-09-2016
एम एस 16998 एम	कप्तान	अभिनव पारीक	21-09-2016
एम एस 17038 ए	कप्तान	वरुण कुमार	29-06-2016
एम एस 17051के	कप्तान	इरवान कौर	29-06-2016

एन एस -16633 एक्स	कप्तान	राकेश कुमार सिंह	15-06-2014
एम एस -16778 एच	कप्तान	प्रशांत पिलानिया	26-02-2016
एम एस-16787के	कप्तान	सौपर्नो मित्रा	26-02-2016
एम एस-16801एल	कप्तान	हेमंत हिमांशु परिहार	07-08-2016
एम एस-13567पी	कप्तान	(मृतक) नारायण एम	08-12-2001

सर्जन लेफ्टिनेंट से सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर के पद पर

एम एस-16988एच (76167एफ)	सर्जन लेफ्टिनेंट	परुस्ती हिमांशु हजारी	21-09-2016
एमएस-16886-एम (76139-टी)	सर्जन लेफ्टिनेंट	यादव नवीन कुमार मुरलीधर	17.01.2016
एम एस-16990ए (76169के)	सर्जन लेफ्टिनेंट	कोटियन विनीत गोपाल	21-09-2016
एम एस-16996एफ (76171आर)	सर्जन लेफ्टिनेंट	मनोज पन्त	21-09-2016
एम एस-16867एफ (76134एफ)	सर्जन लेफ्टिनेंट	मयंक दुआ	22-11-2015
एम एस-17000डब्ल्यू (76166बी)	सर्जन लेफ्टिनेंट	एस आनंदी	21-09-2016
एम एस-17229पी (76164जेड)	सर्जन लेफ्टिनेंट	प्रियंका पाण्डेय	21-09-2016
एमएस-17026एल (76194टी)	सर्जन लेफ्टिनेंट	सुदीप्त अधिकारी	29-06-2016
एमएस-17042एच (76183टी)	सर्जन लेफ्टिनेंट	बिनोय मैकिल	29-06-2016
एमएस-16883-वाई (76137-एन)	सर्जन लेफ्टिनेंट	दामोदर पी	17.01.2016
एमएस-16934-एफ (76155-बी)	सर्जन लेफ्टिनेंट	कैकाडे सचिन रामदास	15.03.2016
एमएस-16999-पी (76160-आर)	सर्जन लेफ्टिनेंट	जयकृष्णन वी वाई	21.03.2016
एमएस-16812एक्स (76114के)	सर्जन लेफ्टिनेंट	उज्ज्वा हाशिम	27.09.2012
एमएस-16936एम (76157एच)	सर्जन लेफ्टिनेंट	चिरा कृष्ण मोहन	16.03.2016
एमएस-16815एल (76117टी)	सर्जन लेफ्टिनेंट	पार्वती पी	27-09-2015
एमएस-16882W (76138आर)	सर्जन लेफ्टिनेंट	पवार मोहनीश रमेश	17-01-2016
एमएस-17527L (76279के)	सर्जन लेफ्टिनेंट	सिंह निखिल अशोक	01-11-2015
एमएस-16856 पी (76133-बी)	सर्जन लेफ्टिनेंट	काशिविश्वनाथन एम	21.10.2015

फ्लाईट लेफ्टिनेंट से स्क्वाड्रन लीडर के पद पर

एमएस-16825-पी (एएफ-32049-जी)	फ्लाईट लेफ्टिनेंट	हरी प्रशाथ एम	27.09.2015
एमएस-16821वाई (ए एफ 32054एन)	स्क्वाड्रन लीडर	के एम मेहदी हाफिज लश्कर	27 मार्च 2015
एमएस-16832एल (ए एफ 32051बी)	स्क्वाड्रन लीडर	एबिन स्टेनली	27 मार्च 2015
एमएस-16949के (ए एफ 32375के)	स्क्वाड्रन लीडर	कुलकर्णी अनिकेत अशोक	04 मार्च 2013

एम एस-17142एन (ए एफ 33139एस)	स्क्वाड्रन लीडर	चेरुशेरीकारन बेटसी अन्थोनी	06 अगस्त 2014
एम एस-17158वाई (ए एफ 33140के)	स्क्वाड्रन लीडर	नमिता चौधरी	06 अगस्त 2014
एम एस-17165पी (ए एफ 33138एन)	स्क्वाड्रन लीडर	तिवारी विभा बट्टी विशाल	06 फरवरी 2014
एम एस-17239वाई (ए एफ 33147आर)	स्क्वाड्रन लीडर	सुश्री संगीता खटुआ	17 सितंबर 2014
एम एस-17242वाई (ए एफ-33150आर)	फ्लाईट लेफ्टिनेंट	राहुल कुमार	11 अक्टूबर 2015
एम एस-16836एफ (ए एफ-32052जी)	फ्लाईट लेफ्टिनेंट	सन्नी तौमर	27.09.2015

सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी)

लेफ्टिनेंट से कप्तान के पद पर

व्यक्तिगत संख्या	पद	नाम	पदोन्नति की तिथि
एन टी एस-17634 एम	लेफ्टिनेंट	संतोष कुमार सिंह	09 अप्रैल 2016

सेना चिकित्सा सेवा

लेफ्टिनेंट से कप्तान के पद पर

एमएस-17660एन	कप्तान	अभिजीत सिंह	26-07-2016
एमएस-17661डब्ल्यू	कप्तान	अभिषेक शर्मा	26-07-2016
एमएस-17130वाई	कप्तान	अमनीन्दर सिंह	24-08-2014
एमएस -17590ए	कप्तान	रिया चोपड़ा	17-02-2016
एमएस-17602के	कप्तान	अमल अलाना	17-02-2016
एमएस-17506एक्स	कप्तान	परिधी संजय गुप्ता	17-02-2016
एमएस-17607एच	कप्तान	कृष्णा प्रसाद वी सतीश	17-02-2016
एमएस-17611एल	कप्तान	दिव्यांशु दिवेदी	17-02-2016
एमएस-17618पी	कप्तान	अंकुर शर्मा	17-02-2016
एमएस-17308के	कप्तान	तन्मय अग्रवाल	03-03-2015
एमएस-17388एम	कप्तान	ललित किशोर त्रिपाठी	07-08-2015
एमएस-17313पी	कप्तान	अमरदीप कौर	03.03.2015

एमएस-17591एच	कप्तान	अनुराग डांडा	17.02.2016
एमएस-17603एम	कप्तान	अनीश कुमार मिश्रा	17.02.2016
एमएस-17126डब्ल्यू	कप्तान	मनीश सिंह	24.08.2014
एमएस-17106एच	कप्तान	सुदीप कुमार राँय	01-03-2014
एमएस-17331एक्स	कप्तान	अभिषेक सिंह	03-03-2015
एमएस-17620एम	कप्तान	आर एन हरीश	17-02-2016
एमएस-17386एफ	कप्तान	गगन दीप नीखरा	07-08-2015
एमएस-17325के	कप्तान	अभिषेक शर्मा	03 मार्च 2015
एमएस-17329ए	कप्तान	प्रेम वर्धन	03-03-2015
एमएस-17296ए	लेफ्टिनेंट	स्याम प्रकाश	03 मार्च 2015

फ्लाईट लेफ्टिनेंट के पद पर

एम एस-17302 एच (ए एफ-33683टी)	फ्ला लेफ्टि	वन्दना सिंह	03 मार्च 2015
एम एस-17315 ए (ए एफ-33684बी)	फ्ला लेफ्टि	सुवनलियनमांग फैपी	03 मार्च 2015
एमएस-17301ए (ए एफ-33682आर)	फ्ला लेफ्टि	पायल कुंडू	03 मार्च 2015
एम एस-17317एल (ए एफ-33685जी)	फ्ला लेफ्टि	अंकित चावला	03 मार्च 2015

सर्जन सब लेफ्टिनेंट से सर्जन लेफ्टिनेंट के पद पर

एमएस-16773के (76104एन)	सर्जन सब लेफ्टिनेंट	विभू तिवारी	26 फरवरी 2012
एमएस-17316एच (76268के)	सर्जन सब लेफ्टिनेंट	सरली संतोष राजा	03-03-2015
एमएस-17100एफ (76246के)	सर्जन सब लेफ्टिनेंट	शक्ति प्रसाद पांडा	01 मार्च 2014
एमएस-17585पी (76304टी)	सर्जन सब लेफ्टिनेंट	रचना वर्मा	17-02-2016
एमएस-17597के (76306वाई)	सर्जन सब लेफ्टिनेंट	अभिषेक पटेल	17-02-2016
एमएस-17598एम (76307जेड)	सर्जन सब लेफ्टिनेंट	सोहम दास	17-02-2016
एमएस-17305डब्ल्यू (76264ए)	सर्जन सब लेफ्टिनेंट	वेल्लाला श्रीनिवास कार्तिक	03-03-2015
एमएस-17583के (76331बी)	सर्जन सब लेफ्टिनेंट	शुभरान्शु कुमार	17-02-2016

आर के रान्याल
एयर वाईस मार्शल
अपर महानिदेशक (मा.सं.)

सेना शाखा

सं. 127, दिनांक 24 मई 2017—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी आयोग

सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी)

मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर

व्यक्तिगत संख्या	पद	नाम	पदोन्नति की तिथि
एन टी आर-16732ए	मेजर	बिराजमान चंद	31 अक्टूबर 2015
एन टी आर-16694पी	मेजर	श्याम सिंह	19 मई 2016
एन टी आर -16695एक्स	मेजर	शर्मा सतीश सीताराम	19 मई 2016
एन टी आर-16756के	मेजर	गोकरण सिंह	19 मई 2016
एन टी आर-16757एम	मेजर	मधु के	19 मई 2016
एन टी आर -16758पी	मेजर	संजीव कुमार	19 मई 2016

अल्पकालिक सेवा कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा

मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर

एम एस-15124एम	मेजर	वराह वैकट गांताइट	16-06-2016
एम एस-15302के	मेजर	राकेश भाटिया	16-06-2016
एम एस -15122एफ	मेजर	अर्चना दलेला	16-06-2016
एम एस-15140 के	मेजर	स्वर्णप्रीत कौर	16-06-2016

स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर के पद पर

एम एस 14846 एम (एएफ27651ए)	स्क्वाड्रन लीडर	श्रुति शर्मा	27 जनवरी 2015
एम एस 14901 एक्स (एएफ27657 बी)	स्क्वाड्रन लीडर	महेश घिमन	24 सितम्बर 2015
एमएस-14836एच (27648ए)	विंग कमांडर	अंजली लालवानी	18 नवंबर 14
एमएस-14709एन (27643बी)	विंग कमांडर	अपराजिता भयाना	08 दिसंबर 14

स्थायी आयोग

सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी)

कप्तान से मेजर के पद पर

व्यक्तिगत संख्या	पद	नाम	पदोन्नति की तिथि
एन टी आर - 16838 एम	कप्तान	साजू ई के	07 अप्रैल 2016
एन टी आर-16840 के	कप्तान	मिलन कुमार नन्दा	07 अप्रैल 2016
एन टी आर-16841 एम	कप्तान	पार्था बिजोय नाथ	07 अप्रैल 2016
एन टी आर-16842 पी	कप्तान	के कुमार	07 अप्रैल 2016
एन टी आर-16843 एक्स	कप्तान	सत्य प्रकाश चौबे	07 अप्रैल 2016

एन टी आर-16844 ए	कप्तान	हर्मेस यादव	07 अप्रैल 2016
एन टी आर-16890 पी	कप्तान	एस वी नरसिम्हा राव सी एच	07 अप्रैल 2016
एन टी आर-16892 ए	कप्तान	गिरीश जी	07 अप्रैल 2016
एन टी आर-16900 एन	कप्तान	सत्यनारायण	07 अप्रैल 2016

अल्पकालिक सेवा आयोग

सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी)

कप्तान से मेजर के पद पर

व्यक्तिगत संख्या	पद	नाम	पदोन्नति की तिथि
एन टी एस - 17578 वाई	कप्तान	पृथ्वीराज परवाना	07 अप्रैल 2016
एन टी एस - 17580 डब्ल्यू	कप्तान	संजय राणा	07 अप्रैल 2016
एन टी एस - 17581 वाई	कप्तान	मोड़रांगतम रंजन मीतेयी	07 अप्रैल 2016
एन टी एस - 17583 के	कप्तान	राम चंद्र भट्टराय	07 अप्रैल 2016
एन टी एस - 17586-एक्स	कप्तान	सजीथ सी वी	07 अप्रैल 2016

सेना चिकित्सा सेवा

कप्तान से मेजर के पद पर

एम एस-16737वाई	कप्तान	संदीप गोथवाल	07-07-2014
एन एस-16863एल	कप्तान	अर्जुन जोशी	21-10-2015
एम एस-17233एक्स	कप्तान	राज्जाकुर रहमान	17-12-2014
एम एस-17405एफ	कप्तान	यशस्वी खंडावल्ली	01-11-2015
एम एस-17533वाई	कप्तान	रूपक कुमार सिंह	01-11-2015
एम एस-17654ए	कप्तान	एच एम कासी विस्वनाथ	11-01-2016
एन एस-16937पी	कप्तान	फेबा सुसन वर्की	16-03-2016
एम एस-17031डब्ल्यू	कप्तान	प्रियंक अगस्त्य	29-06-2016
एम एस-17046वाई	कप्तान	राजेश कुमार	29-06-2016
एम एस-17398डब्ल्यू	कप्तान	किरण कुमार देवरशेटी	01-11-2015
एम एस-17562एन	कप्तान	मोहित कटारुका	01-07-2015

सर्जन लेफ्टिनेंट से सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर के पद पर

एमएस-16992एल (76172टी)	सर्जन लेफ्टिनेंट	जी के शरत	21-09-2016
एमएस-17035एम (76195डब्ल्यू)	सर्जन लेफ्टिनेंट	सुमन सिंह	29-06-2016
एमएस-17064एफ (76205टी)	सर्जन लेफ्टिनेंट	पराते किरणकुमार ध्यानेश्वर	12-08-2016
एमएस-16838एम (76120जेड)	सर्जन लेफ्टिनेंट	अक्शत जी	27.09.2015

फ्लाईट लेफ्टिनेंट से स्क्वाड्रन लीडर के पद पर

एम एस-16830ए (ए एफ-32055एस)	फ्लाईट लेफ्टिनेंट	जेठवा जयदीप प्रवीनचंद्र	27-03-2015
एम एस-16724एफ (ए एफ-31098ए)	फ्लाईट लेफ्टिनेंट	अभिनव तिवारी	26-06-2014
एम एस-16748एल (ए एफ-31408ए)	फ्लाईट लेफ्टिनेंट	बेंसी स्टेफेन	30.07.2014

स्थायी आयोग

सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी)

लेफ्टिनेंट से कप्तान के पद पर

व्यक्तिगत संख्या	पद	नाम	पदोन्नति की तिथि
एन टी आर-16894एल	लेफ्टिनेंट	राकेश चंद्र	09 अप्रैल 2016
एन टी आर-16895एन	लेफ्टिनेंट	संजीव वाघमोरे	09 अप्रैल 2016
एन टी आर-16896डब्ल्यू	लेफ्टिनेंट	गुलाम हुसैन अंसारी	09 अप्रैल 2016
एन टी आर-16897वाई	लेफ्टिनेंट	दानिश एस	09 अप्रैल 2016

अल्पकालिक सेवा आयोग

सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी)

लेफ्टिनेंट से कप्तान के पद पर

व्यक्तिगत संख्या	पद	नाम	पदोन्नति की तिथि
एन टी एस-17629एफ	लेफ्टिनेंट	राधा कान्त शर्मा	09 अप्रैल 2016
एन टी एस-17630डब्ल्यू	लेफ्टिनेंट	बिभुदात्ता साहू	09 अप्रैल 2016
एन टी एस-17631वाई	लेफ्टिनेंट	सुहैल अहमद डार	09 अप्रैल 2016
एन टी एस-17633के	लेफ्टिनेंट	एस विगनेशवरन	09 अप्रैल 2016
एन टी एस-17635पी	लेफ्टिनेंट	मोहम्मद इकबाल वानी	09 अप्रैल 2016
एन टी एस-17636एक्स	लेफ्टिनेंट	अमित सिंह	09 अप्रैल 2016
एन टी एस-17637ए	लेफ्टिनेंट	पबोन बैलुंग	09 अप्रैल 2016
एन टी एस-17638एच	लेफ्टिनेंट	विकास शर्मा	09 अप्रैल 2016
एन टी एस-17632एफ	लेफ्टिनेंट	अनिल कुमार भूटिया	09 अप्रैल 2016

सेना चिकित्सा सेवा

लेफ्टिनेंट से कप्तान के पद पर

एमएस-17133एम	कप्तान	अश्विन वल्सन	24-08-2014
एमएस-17588एच	कप्तान	बिमन लहिरी	17-02-2016
एमएस-17589एल	कप्तान	निधीश मोहन जे	17-02-2016

एमएस-17621पी	कप्तान	अंकित उपाध्याय	17-02-2016
एमएस-17623ए	कप्तान	सनोज	24-02-2016
एमएस-17322डब्ल्यू	कप्तान	धीरेन्द्र कुमार तिवारी	03-03-2015
एमएस-17610एच	कप्तान	सुमेश मेनन	17-02-2016

सर्जन सब लेफ्टिनेंट से सर्जन लेफ्टिनेंट के पद पर

एमएस-17599पी (76308ए)	सर्जन सब लेफ्टिनेंट	मोनान्शु जैसवाल	17-02-2016
एमएस-17578-वाई (76330ए)	सर्जन सब लेफ्टिनेंट	हांडा शिवानी विजय	17-02-2016

बी श्रीधर
ब्रिगेडियर
उपमहानिदेशक (मा.सं.)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 15th July 2017

(ARMY BRANCH)

No. 123, dated 18th May 2017—The President is pleased to make the following appointment for a period of 5 years under AI 75/78 as amended:-

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

(TO BE CAPT ON PROBATION)

CAPT RAGINI THAPA MS-17950L DOC-24.06.2015

With seniority for pay and promotion from 24.06.2012. This includes 36 months antedate seniority for MD in Pathology which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT DIVYASHREE GN MS-18058A DOC-04.08.2015

With seniority for pay and promotion from 04.02.2015. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT ANUJ JAKHAR MS-17887F DOC-10.07.2015

With seniority for pay and promotion from 10.01.2015. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT ARASHDEEP SINGH MS-17537P DOC-01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.05.2014 This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT MUZEER SHARIF MOLLA MS-17681K DOC-23.06.2015

With seniority for pay and promotion from 23.12.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT ARUN R MS-18021Y DOC-25.08.2015

With seniority for pay and promotion from 25.02.2015. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT ESHWARYA JESSY KAUR MS-18056P DOC-15.07.2015

With seniority for pay and promotion from 15.07.2012. This includes 36 months antedate seniority for PG Degree in MD(Obst & Gynae) which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT MATHUR PRAKHARKUMAR PARAJKUMAR MS-18067F DOC-10.01.2015

With seniority for pay and promotion from 10.07.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT ATUL GUPTA MS-18074X DOC-19.08.2015

With seniority for pay and promotion from 19.08.2012. This includes 36 months antedate seniority for PG Degree in MS(Otorhinolaryngology) which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT SHISHIR KUMAR MS-17970Y DOC-08.07.2015

With seniority for pay and promotion from 08.07.2012. This includes 36 months antedate seniority for PG Degree in MS(General Surgery) which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT HEMANT SINGH CHAHAR MS-17471K DOC-10.01.2015

With seniority for pay and promotion from 10.01.2012. This includes 36 months antedate seniority for PG Degree in MS(Orthopaedics) which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT PINKESH KUMAR YADAV MS-17793K DOC-19.08.2015

With seniority for pay and promotion from 19.02.2015. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT SAMBIT PATRA MS-18191H DOC-27.06.2015

With seniority for pay and promotion from 27.12.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT ATUL KHULLAR MS-17059W DOC-12.02.2013

With seniority for pay and promotion from 12.08.2012. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT VINAY KUMAR MS-17995L DOC-08.08.2015

With seniority for pay and promotion from 08.08.2013. This includes 24 months antedate seniority for PG Diploma in (Child Health), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT ATUL BISHNOI MS-17940F DOC-23.06.2015

With seniority for pay and promotion from 23.12.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT KAPIL KUMAR MS-17624H DOC-01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.05.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT V RAJESH REDDY MS-17491X DOC-11.01.2015

With seniority for pay and promotion from 11.07.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT SRINU AREKANTI MS-17821L DOC-06.08.2015

With seniority for pay and promotion from 06.02.2015. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT NIKIT MURTY MS-17260F DOC-19.10.2013

With seniority for pay and promotion from 19.04.2013. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

(TO BE FLT LT ON PROBATION)

FLT LT FATIMA SYEDA SHAMIM (MS-17897L)(AF-34398K) (EX MS-13947N) AMC, DOC 02.07.2015 WITH SENIORITY FOR PAY AND PROMOTION WITH EFFECT FROM 02.01.2007. THIS INCLUDES TOTAL 08 YEARS AND 06 MONTHS SERVICE (05 YEARS FOR PREVIOUS FULL PAY COMMISSION SERVICE AND 03 YEARS FOR PG DEGREE IN MS ENT AND 06 MONTHS FOR HOUSE JOB), WHICH WILL NOT COUNT FOR GRATUITY. SENIORITY IN THE RANK OF FLT LT WILL RECKONS WITH EFFECT FROM 02.01.2007.

(MINISTRY OF DEFENCE NOTIFICATION PUBLICATION IN SO FAR AS IT RELATES TO THE ABOVE NAMED OFFICER IS HEREBY CANCELLED).

(TO BE SURG LT ON PROBATION)

SURG LT SRINIVAS R MS-18194W (76275-A) DOC-01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.05.2012. This includes 30 months (24 month antedate seniority for PG Diploma in (Anesthesiology) & 06 month for Hospital Appointment) , which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

RK Ranyal
Air Vice Marshal
Addl DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No.124, Dated 19th.May.2017—The President is pleased to make the following appointment for a period of 5 years under AI 75/78 as amended :-

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

TO BE CAPT ON PROBATION

CAPT SOUMITA KAR MS-17905Y DOC-23.06.2015

With seniority for pay and promotion from 23.12.2011. This includes 36 months antedate for PG Degree MD (Anaesthesiology) and 06 months for house job appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT RITU RAJ MS-17687L DOC-23.06.2015

With seniority for pay and promotion from 23.12.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT ANUBHAV UPADHYAY MS-17528N DOC-01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.05.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT SANJEEV KUMAR MS-17546W DOC-01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.05.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT NAINA TAMTA MS-17790W DOC-11.08.2015

With seniority for pay and promotion from 11.02.2015. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT SHEKHAR DUTT BAJPEYEE MS-17725W DOC-07.07.2015

With seniority for pay and promotion from 07.01.2015. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT DILEEP M MS-17553M DOC-01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.05.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT MANVENDRA SINGH RAWAT MS-17734X DOC-16.07.2015

With seniority for pay and promotion from 16.01.2012. This includes 42 months antedate for PG Degree MD (Pathology) and six months for housejob appointment held at State Blood Transfusion Council, Doon Hospital Dehradun, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT GAURAV MISHRA MS-17900A DOC-04.08.2015

With seniority for pay and promotion from 04.02.2015. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT FARAZ HAIDER MS-17919Y DOC-21.07.2015

With seniority for pay and promotion from 21.01.2015. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT SABYASACHI SEN MS-17760Y DOC-30.06.2015

With seniority for pay and promotion from 30.12.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT SUVARNA KALA MOKA MS-17771L DOC-23.06.2015

With seniority for pay and promotion from 23.12.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT G VISWANATH MS-17709Y DOC-27.06.2015

With seniority for pay and promotion from 27.12.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT G SAINATH RAM MS-17425P DOC-01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.05.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT BHADORIA ANKUSHSINH TEKSINH MS-17680F DOC-23.06.2015

With seniority for pay and promotion from 23.12.2014. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT AJAY PANDITA MS-17931A DOC-23.06.2015

With seniority for pay and promotion from 23.06.2012. This includes 36 months antedate seniority for PG Degree in MD (Medicine) which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT LIVTAR SINGH MS-17854W DOC-18.08.2015

With seniority for pay and promotion from 18.02.2015 This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT ANKUSH GUPTA MS-17813M DOC-05.08.2015

With seniority for pay and promotion from 05.02.2015 This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT NITESH KUMAR YADAV MS-17847A DOC-14.08.2015

With seniority for pay and promotion from 14.02.2015 This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT DEEPAK BHARDWAJ MS-17803H DOC-04.08.2015

With seniority for pay and promotion from 04.02.2015 This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT RAHUL SINGH MS-18029L DOC-01.07.2015

With seniority for pay and promotion from 01.01.2015 This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT MANOJ RAJE MS-17449Y DOC-01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.11.2012. This includes 24 months antedate seniority for PG Diploma in (Anaesthesiology), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT DIWATE SUNIL UMAKANT MS-17740L DOC-12.08.2015

With seniority for pay and promotion from 12.02.2012. This includes 36 months antedate for PG Degree MD (Community Medicine) and 06 months for house job appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT SHIVANI MS-17845P DOC-14.08.2015

With seniority for pay and promotion from 14.02.2015 This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT LAKSHMY S BABU MS-17795P DOC-22.09.2015

With seniority for pay and promotion from 22.03.2015. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT ANUPAM SHARMA MS-18049Y DOC-29.09.2015

With seniority for pay and promotion from 29.09.2012. This includes 36 months antedate seniority for PG Degree in MD (Pathology) which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT SIMRANDEEP SINGH MS-18007M DOC-17.08.2015

With seniority for pay and promotion from 17.02.2015. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT AJAY KUMAR MS-17531-N DOC-01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 01.05.2011. This includes 36 months antedate for PG Degree MD (GENERAL MEDICINE) and 06 months for housejob appointment held at Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

a)	CAPT KULDEEP KUMAR SHARMA	MS-16668N	AMC	15.06.2010
a)	CAPT SHIKHA KUNWAR	MS-18059H	AMC	04.08.2015
b)	CAPT BHASKAR JYOTI DEURI	MS-18073P	AMC	18.08.2015
c)	CAPT DINESH BHOLE	MS-18084F	AMC	11.03.2016
a)	CAPT RAJNI	MS-17818L	AMC	05.08.2015
b)	CAPT SRINU AREKANTI	MS-17821L	AMC	06.08.2015
c)	CAPT ASHOK KUMAR	MS-18031H	AMC	04.07.2015
d)	CAPT SAGAR MITTAL	MS-18032L	AMC	09.07.2015
e)	CAPT SINGH YOGESH NARAIN	MS-18033N	AMC	10.07.2015
f)	CAPT BIKRAMJEET SINGH	MS-18038M	AMC	04.08.2015
g)	CAPT SATENDER MALIK	MS-18040K	AMC	05.08.2015
h)	CAPT SHAKTI DAGAR	MS-18092A	AMC	14.03.2016
j)	CAPT POORVA SHARMA	MS-18095N	AMC	15.03.2016
k)	CAPT S NAVEEN REDDY	MS-18100N	AMC	17.03.2016
a)	CAPT ARUN KUMAR KARLAPUDI	MS-17729M	AMC	09.07.2015
b)	CAPT SHERVEGAR RAJDEEP PRABHAKAR	MS-17864A	AMC	13.08.2015
c)	CAPT MOHIT WADHWA	MS-18020W	AMC	22.08.2015
d)	CAPT BHIRUD ATUL RAJESH	MS-18023K	AMC	25.09.2015
e)	CAPT DASTURE SWAPNIL SUDHAKARRAO	MS-18024M	AMC	14.07.2015
f)	CAPT ANOOP SHARMA	MS-18039P	AMC	04.08.2015
g)	CAPT SOUMYA SIDDHA CHAKRABORTY	MS-18064N	AMC	12.09.2015
a)	CAPT MOHNEESH PANDEY	MS-17747P	AMC	04.02.2015
b)	CAPT LILY SWAIN	MS-17849L	AMC	15.08.2015
c)	CAPT PATIL KIRAN NAMDEV	MS-17865H	AMC	13.08.2015
d)	CAPT NIRAJ KUMAR	MS-17867N	AMC	18.08.2015
e)	CAPT AJAY KUMAR SAXENA	MS-18028H	AMC	27.06.2015
f)	CAPT LAKSHAY MADHRA	MS-18070F	AMC	07.07.2015

g)	CAPT DHANWADE SACHIN NARAYAN	MS-18078N	AMC	09.03.2016
h)	CAPT RAGHAVENDRA HUCHCHANNAVAR	MS-18203M	AMC	18.08.2015
a)	CAPT GNANAVEL N	MS-17389P	AMC	19.10.2013
b)	CAPT ARIVARASAN S	MS-17676Y	AMC	23.06.2015
c)	CAPT LALITH MEESALA	MS-17704A	AMC	26.06.2015
d)	CAPT SHRAVAN KUMAR V	MS-17713F	AMC	30.06.2015
e)	CAPT POTNURI L VENKATA UDAY	MS-17794M	AMC	29.08.2015
f)	CAPT DUMMU GOPI KRISHNA	MS-17827M	AMC	07.08.2015
g)	CAPT DHADUVAI SMARAN KALYAN	MS-17856F	AMC	18.08.2015
a)	CAPT SMRITI PAUL	MS-17801X	AMC	04.08.2015
b)	CAPT RAJENDRA KUMAR JAT	MS-17895A	AMC	19.07.2015
c)	CAPT ABHIJIT KUMAR SINGH	MS-17951N	AMC	24.06.2015
d)	CAPT KODGIRE PANKAJ PANDURANGRAO	MS-17966W	AMC	06.07.2015
e)	CAPT PRIYANKA CHAUDHARY	MS-18057X	AMC	20.07.2015
f)	CAPT ANTRIKSH SHARMA	MS-18066Y	AMC	22.09.2015
g)	CAPT AMIT KUMAR SAHU	MS-18089A	AMC	12.03.2016
h)	CAPT ANBARASAN G	MS-18094L	AMC	15.03.2016
j)	CAPT JETENDER SINGH RATHORE	MS-18118K	AMC	22.03.2016
k)	CAPT RISHIKESH PRASAD SHAW	MS-18200Y	AMC	11.08.2015
l)	CAPT SHAMA PARVEEN	MS-18202K	AMC	15.08.2015

(To be FLT LT on probation)

(a)	FLT LT DINOY CHANDRAN R	<u>MS-17927X</u> (AF-34795H)	AMC	12.08.2015
(b)	FLT LT BEYILS A MATHEWS	<u>MS-17962A</u> (AF-34750H)	AMC	02.07.2015
(c)	FLT LT SAFQUAT JALIL	<u>MS-17963H</u> (AF-34751L)	AMC	02.07.2015
(d)	FLT LT GUNJAN UPADHYAY	<u>MS-17972K</u> (AF-34772G)	AMC	10.07.2015
(e)	FLT LT VAIBHAV SADIWAL	<u>MS-17973M</u> (AF-34774N)	AMC	10.07.2015
(f)	FLT LT AWARIWAR MAHESH DEORAO	<u>MS-18000H</u> (AF-34796L)	AMC	12.08.2015
(g)	FLT LT N MADHU	<u>MS-18005F</u> (AF-34800H)	AMC	14.08.2015
(h)	FLT LT RAUT VINOD VILAS	<u>MS-18026X</u> (AF-34813F)	AMC	20.10.2015
(j)	FLT LT SAKSHI BANSAL	<u>MS-18047N</u> (AF-34807N)	AMC	18.08.2015
(a)	FLT LT PRIYANK JHINGAN	<u>MS-17934N</u> (AF-34766R)	AMC	23.06.2015
(b)	FLT LT GANESH KISAN MANMODE	<u>MS-17947L</u> (AF-34762A)	AMC	24.06.2015
(c)	FLT LT HARMESHWAR SINGH	<u>MS-17948N</u> (AF-34768B)	AMC	24.06.2015
(d)	FLT LT MAINAK CHANDRA DAS	<u>MS-17958X</u>	AMC	30.06.2015

		(AF-34757N)		
(e)	FLT LT NAVJOT SINGH SIDHU	<u>MS-17976A</u> (AF-34773K)	AMC	14.07.2015
(f)	FLT LT VIVEK UJWAL	<u>MS-17979N</u> (AF-34778H)	AMC	15.07.2015
(g)	FLT LT AJIN ANTO AK	<u>MS-17993A</u> (AF-34788N)	AMC	06.08.2015
(h)	FLT LT GAGANDEEP SINGH BHATTI	<u>MS-17997W</u> (AF34791N)	AMC	11.08.2015
(j)	FLT LT SHAFU PULANI	<u>MS-18001L</u> (AF-34798T)	AMC	13.08.2015

(To be SURG LT on probation)

(a)	SURG LT GEDAM MAYURI VIJAYKUMAR	<u>MS-16644K</u> (76096-W)	AMC	15.06.2010
(a)	SURG LT JOGESH AHUJA	<u>MS-18012X</u> (76326-T)	AMC	08.09.2015

SURG LT SHEJALE NAVEEN ASHOK MS-17525A (76278H) DOC-01.11.2014

With seniority for pay and promotion from 1.11.2011. This includes 36 months antedate seniority for PG Degree in MS (Orthopaedics) which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

SURG LT SUNISH ZACHARIAH MS-17937F(76310-F) DOC-23.06.2015

With seniority for pay and promotion from 23.06.2012. This includes 36 months antedate seniority for PG Degree in MS (Orthopaedics) which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

SURG LT ANAMICA AHUJA MS-18195Y DOC-18.07.2015

With seniority for pay and promotion from 18.01.2015 This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

The President is pleased to make the following appointment for a period of 7 years under AI 75/78 as amended:

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

(To be FG OFFR on probation)

1	FG OFFR AADIL NISHAT	<u>MS-17581Y</u> (AF-34099L)	AMC	18.03.2015
2	FG OFFR HARSH HOLANI	<u>MS-17582F</u> (AF-34100S)	AMC	18.03.2015
3	FG OFFR MANISH KUMAR SHUKLA	<u>MS-17593N</u> (AF-34389H)	AMC	18.03.2015
4	FG OFFR AMAR KUMAR GAUTAM	<u>MS-17594W</u> (AF-34390A)	AMC	18.03.2015
5	FG OFFR AYUSH MATHUR	<u>MS-17595Y</u> (AF-34391F)	AMC	18.03.2015
6	FG OFFR AMAR PRAKASH AHIRWAR	<u>MS-17596F</u> (AF-34392H)	AMC	18.03.2015

B SRIDHAR
Brig
Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 125, dated 22nd May 2017—The President is pleased to confirm the undermentioned AMC (Non-Tech)/PC officers consequent on completion of the probationary period :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS (NON-TECH)

Srl No.	Pers No.	Rank	Name	Date of Commission
(a)	NTR-16893-H	Lt	Samir Chhetri	09 Apr 2014
(b)	NTR-16894-L	Lt	Rakesh Chander	09 Apr 2014
(c)	NTR-16895-N	Lt	Sanjeev Waghmore	09 Apr 2014
(d)	NTR-16896-W	Lt	Gulam Hussain Ansari	09 Apr 2014

SHORT SERVICE COMMISSION

Army Medical Corps (NON-TECH)

Srl No.	Pers No.	Rank	Name	Date of Commission
(a)	NTS-17639-L	Lt	Surinder Singh	06 Apr 2015
(b)	NTS-17640-A	Lt	Gajender Singh	06 Apr 2015
(c)	NTS-17641-H	Lt	Jagtar Singh	06 Apr 2015
(d)	NTS-17642-L	Lt	Udaya Kumar J	06 Apr 2015
(e)	NTS-17643-N	Lt	Sudipto Mondal	06 Apr 2015

B SRIDHAR
Brig
Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 126, dated 23rd May 2017—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

Major to Lt Col

Srl No.	Pers No.	Rank	Name	Date of Promotion
(a)	NTR-16755F	Maj	Laishram Deban Singh	31 Oct 2015

SHORT SERVICE COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS

Maj to Lt Col

MS-15035N	Maj	Raman Malhi	12.04.2016
MS-15010F	Maj	Mukesh Kumar	12-04-2016
MS-14950A	Maj	Anil Kumar Gupta	12.04.2016
MS-14979H	Maj	Manish Bansal	12.04.2016

MS-14996H	Maj	Ravindra Kumar	12.04.2016
MS-15031X	Maj	Manoj Kumar Singh	12.04.2016
MS-15040Y	Maj	Kirti Bhushan	12.04.2016
MS-15043M	Maj	Daya Nath Jha	12.04.2016
MS-17135X	Maj	Priyanka Arora	18.04.2016
MS-15138M	Maj	Navratan Singh Rathore	16-06-2016
MS-14878P	Maj	Sween Banger	10-08-2016
MS-15195N	Maj	Neeraja	20-07-2016
MS-15110M	Maj	Sudhir	20-07-2016
MS-15218K	Maj	Sarjeet Singh Yadav	20-07-2016
MS-15003L	Maj	Naveen Kumar Sharma	12-04-2016

Sqn Ldr to Wg Cdr

MS-14906W (AF-27666F)	Wg Cdr	Suvash Sahu	04 Jun 15
MS-15552L (AF-28904R)	Wg Cdr	Safia Ahmed	17 Apr 15
MS-14843Y (AF-27653H)	Sqn Ldr	Doddamani Diwakar	27.07. 2015
MS-14907Y (AF-27665A)	Sqn Ldr	Jyothi Laxmi Dahat	04.12. 2015

Surg Lt Cdr to Surg Cdr

MS-15051L (75891B)	Surg Cdr	Anjali Pandey	12-04-2016
MS-16069-N (76004-k)	Surg Lt Cdr	Sivaji Sankar Ghose	26-08-2016

PERMANENT COMMISSION
ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

Capt to Major

Srl No.	Pers No.	Rank	Name	Date of Promotion
(a)	NTR-16839 P	Capt	Baljinder Singh	07 Apr 2016

SHORT SERVICE COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS

Capt to Maj

MS-15801Y	Maj	Prabhat Chaturvedi	25-04-2012
MS-16220N	Capt	Md Imtiaz Ahmed	11-08-2013
MS-16752N	Capt	Pallavi Mamgain	31-01-2014
MS-17118X	Capt	Tandel Kundankumar Uttambhai	21-09-2013
MS-17021M	Capt	Narender Sharma	17-05-2016
MS-16177X	Capt	Rijesh Kumar	11-08-2013
MS-16769F	Capt	Master Jickey	26-02-2016

MS-16969X	Capt	Debatraya Paul	21-03-2016
MS-16688F	Capt	Sridevi Thapa	15-12-2013
MS-16935K	Capt	Ravinder Singh	15-03-2016
MS-17406K	Capt	Sumeena Basandra	01-11-2015
MS-16768Y	Capt	Sangeet Kumar	26-02-2016
MS-16792P	Capt	Manu Tiwari	26-02-2016
MS-16789P	Capt	Bishnu Raj	26-02-2016
MS-15266K	Capt	Anish Kumar Adya	20-02-2011
MS-16585H	Capt	Satveer Singh Choudhary	15-06-2014
MS-16652H	Capt	Vitthal Bhujannavar	15-06-2014
MS-16780A	Capt	Niranjan Sahoo	26-02-2016
MS-16757M	Capt	Anuj Mathur	19-08-2014
MS-16766N	Capt	Subrat Kumar Das	26-02-2016
MS-16767W	Capt	Vignesh S	26-02-2016
MS-16770W	Capt	Raj Krishna Yadav	26-02-2016
MS-16772F	Capt	Anshul Meena	26-02-2016
MS-16774M	Capt	V Krishna Narayanan Nayanar	26-02-2016
MS-16779L	Capt	Varun Deep Mann	26-02-2016
MS-16782L	Capt	Anchal Awasthi	26-02-2016
MS-16786F	Capt	Tapas Ranjan Bisoyi	26-02-2016
MS-16790K	Capt	Ratan Kumar Sadangi	26-02-2016
MS-16794A	Capt	D Ravi	26-02-2016
MS-16258X	Capt	Kartikeya R Singh	20-02-2013
MS-16403K	Capt	Sumit Lavania	30-12-2013
MS-16797N	Capt	Nagma Jaswal	07-08-2016
MS-17061N	Capt	Ajit Kumar	12-08-2016
MS-16971P	Capt	Subhash Chandra	21-09-2016
MS-16463Y	Capt	Rakesh Sharma	08-01-2014
MS-16122N	Capt	Murtaza Ahmed Khan	28-01-2013
MS-17039H	Capt	Vartika Gupta	29-06-2016
MS-17741N	Capt	Khanapure Amol Vijay	12-08-2016
MS-16246H	Capt	Nandagawe Dheeraj Jambukumar	18-08-2013
MS-16632P	Capt	Siddharth Shankar Singh	15-06-2014
MS-16970M	Capt	Gyanendra Singh Bhadauria	21-09-2016
MS-16995Y	Capt	Patil Pradnya Pralhad	21-09-2016
MS-17004M	Capt	Chandrachood Mandar Vilas	06-11-2013
MS-16564M	Capt	A Vinay Dora	24-07-2015
MS-16965F	Capt	K Hareesh	21-09-2016
MS-16802N	Capt	Pankaj Sharma	07-08-2016
MS-16974H	Capt	Akshey Shukla	21-09-2016

MS-16993N	Capt	Mullani Parvez Shabbir	21-09-2016
MS-16998M	Capt	Abhinav Pareek	21-09-2016
MS-17038A	Capt	Varun Kumar	29-06-2016
MS-17051K	Capt	Irwan Kour	29-06-2016
MS-16633X	Capt	Rakesh Kumar Singh	15-06-2014
MS-16778H	Capt	Prashant Pilonia	26-02-2016
MS-16787K	Capt	Souparno Mitra	26-02-2016
MS-16801L	Capt	Hemant Himanshu Parihar	07-08-2016
MS-13567P	Capt	(Late) Narayana M	08-12-2001

Surg Lt To Surg Lt Cdr

MS-16988H (76167F)	Surg Lt	Prusty Himanshu Hajari	21-09-2016
MS-16886M (76139T)	Surg Lt	Yadav Navin Kumar Murlidhar	17.01.2016
MS-16990A (76169K)	Surg Lt	Kotian Vineet Gopal	21-09-2016
MS-16996F (76171R)	Surg Lt	Manoj Pant	21-09-2016
MS-16867F (76134F)	Surg Lt	Mayank Dua	22-11-2015
MS-17000W (76166B)	Surg Lt	S Anandi	21-09-2016
MS-17229P (76164Z)	Surg Lt	Priyanka Pandey	21-09-2016
MS-17026L (76194T)	Surg Lt	Sudipta Adhikari	29-06-2016
MS-17042H (76183T)	Surg Lt	Binoy Michael	29-06-2016
MS-16883-Y (76137-N)	Surg Lt	Damodar P	17.01.2016
MS-16934F (76155B)	Surg Lt	Kaikade Sachin Ramdas	15.03.2016
MS-16999P (76160R)	Surg Lt	Jayakrishnan VY	21.03.2016
MS-16812X (76114K)	Surg Lt	Uzma Hashim	27 .09.2012
MS-16936M (76157H)	Surg Lt	Chirra Krishna Mohan	16.03.2016
MS-16815L (76117T)	Surg Lt	Parvathi P	27-09-2015
MS-16882W (76138R)	Surg Lt	Pawar Mohanish Ramesh	17-01-2016
MS-17527L (76279K)	Surg Lt	Singh Nikhil Ashok	01-11-2015
MS-16856P (76133B)	Surg Lt	Kasiviswanathan M	21.10.2015

Flt Lt to Sqn Ldr

MS-16825P (AF-32049G)	Flt Lt	Hari Prasath M	27.09.2015
MS-16821Y (AF-32054N)	Sqn Ldr	KM Mehdi Hafiz Laskar	27.03.2015
MS-16832L (AF-32051B)	Sqn Ldr	Abin Stanley	27.03.2015
MS-16949K (AF-32375K)	Sqn Ldr	Kulkarni Aniket Ashok	04.03.2013
MS-17142N (AF-33139S)	Sqn Ldr	Cherusserikkaran Betsy Anthony	06. Aug 2014

MS-17158Y (AF-33140K)	Sqn Ldr	Namita Choudhry	06 Aug 2014
MS-17165P (AF-33138N)	Sqn Ldr	Tiwai Vibha Badri Vishal	06 Aug 2014
MS-17239Y (AF-33147R)	Sqn Ldr	Sushree Sangita Khatua	17 Aug 2014
MS-17242Y (AF-33150R)	Flt Lt	Rahul Kumar	11 Oct 2015
MS-16836F (AF-32052G)	Flt Lt	Sunny Tomar	27 Sep 2015

ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

Lt to Capt

Srl No	Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
(a)	NTS-17634- M	Lt	Santosh Kumar Singh	09 Apr 2016

ARMY MEDICAL CORPS

To be Capt

Pers No.	Rank	Name	Dt of prom
MS-17660-N	Capt	Abhijeet Singh	26-07-2016
MS-17661-W	Capt	Abhishek Sharma	26-07-2016
MS-17130Y	Capt	Amninder Singh	24-08-2014
MS-17590A	Capt	Ria Chopra	17-02-2016
MS-17602K	Capt	Amal Alana	17-02-2016
MS-17605X	Capt	Paridhi Sanjay Gupta	17-02-2016
MS-17607H	Capt	Krishna Prasad V Sathees	17-02-2016
MS-17611L	Capt	Divyanshu Dwivedi	17-02-2016
MS-17618P	Capt	Ankur Sharma	17-02-2016
MS-17308K	Capt	Tanmay Agarwal	03-03-2015
MS-17388-M	Capt	Lalit Kishor Tripathi	07-08-2015
MS-17313P	Capt	Amardeep Kaur	03.03.2015
MS-17591H	Capt	Anurag Danda	17.02.2016
MS-17603M	Capt	Anish Kumar Mishra	17.02.2016
MS-17126W	Capt	Manish Singh	24.08.2014
MS-17106H	Capt	Sudeep Kumar Roy	01.03.2014
MS-17331X	Capt	Abhishek Singh	03-03-2015
MS-17620M	Capt	RN Harish	17-02-2016
MS-17386F	Capt	Gagan Deep Neekhara	07.08.2015
MS-17325K	Capt	Abhishek Sharma	03.03.2015
MS-17329A	Capt	Prem Vardhan	03.03.2015
MS-17296A	Lt	Syam Prakash	03 Mar 2015

To be Flt Lt

MS-17302H (AF-33683T)	Flt Lt	Vandana Singh	03 Mar 2015
MS-17315A (AF 33684B)	Fg Offr	Suanlianmang Phaipi	03.03.2015
MS-17301A (AF-33682-R)	Flt Lt	Payel Kundu	03.03.2015
MS-17317L (AF-33685G)	Flt Lt	Ankit Chawla	03.03.2015

Surg Sub Lt to Surg Lt

MS-16773K (76104N)	Surg Sub Lt	Vibhu Tiwari	26 Feb 2012
MS-17316H (76268K)	Surg Sub Lt	Sarali Santhosh Raja	03.03.2015
MS-17100F (76246K)	Surg Sub Lt	Shakti Prasad Panda	01 Mar 2014
<u>MS-17585P</u> (76304T)	Surg Sub Lt	Rachna Verma	17-02-2016
<u>MS-17597K</u> (76306Y)	Surg Sub Lt	Abhishek Patel	17-02-2016
<u>MS-17598M</u> (76307Z)	Surg Sub Lt	Soham Das	17-02-2016
MS-17305W (76264A)	Surg Sub Lt	Vellala Srinivas Karthik	03.03.2015
MS-17583K (76331B)	Surg Sub Lt	Subhranshu Kumar	17-02-2016

RK RANYAL
Air Vice Marshal
Addl DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No.127, dated 24th May 2017—The President is pleased to make the following promotions :-

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

Major to Lt Col

Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
NTR-16732A	Major	Birajman Chand	31 Oct 2015
NTR-16694P	Major	Shyam Singh	19 May 2016
NTR-16695X	Major	Sharma Satish Sitaram	19 May 2016
NTR-16756K	Major	Gokaran Singh	19 May 2016
NTR-16757M	Major	Madhu K	19 May 2016
NTR-16758P	Major	Sanjeev Kumar	19 May 2016

SHORT SERVICE COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS

Maj to Lt Col

Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
MS-15124M	Maj	Varaha Venkat Gantait	16-06-2016
MS-15302K	Maj	Rakesh Bhatia	16-06-2016
MS-15122F	Maj	Archana Dalela	16-06-2016
MS-15140K	Maj	Swaranpreet Kaur	16-06-2016

Sqn Ldr to Wg Cdr

Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
<u>MS-14846M</u> (AF-27651A)	SQN LDR	Shurti Sharma	27.01. 2015
<u>MS-14901X</u> (AF-27657-B)	Sqn Ldr	Maresh Dhiman	24.09.2015
MS-14836H (27648A)	Wg Cdr	Anjali Lalwani	18 Nov 2014
MS-14709N (27643B)	Wg Cdr	Aprajita Bhayana	08 Dec 2014

PERMANENT COMMISSION
ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

Capt to Major

Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
NTR-16838M	Capt	Shaju EK	07 Apr 2016
NTR-16840K	Capt	Milan Kumar Nanda	07 Apr 2016
NTR-16841M	Capt	Partha Bijoy Nath	07 Apr 2016
NTR-16842P	Capt	K Kumar	07 Apr 2016
NTR-16843X	Capt	Satya P Chaubey	07 Apr 2016
NTR-16844A	Capt	Harmesh Yadav	07 Apr 2016
NTR-16890P	Capt	SV Narasimha Rao CH	07 Apr 2016
NTR-16892A	Capt	Girish G	07 Apr 2016
NTR-16900N	Capt	Satyanarain	07 Apr 2016

SHORT SERVICE COMMISSION
ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

Capt to Major

Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
NTS-17578-Y	Capt	Prithviraj Pravana	07 Apr 2016
NTS-17580-W	Capt	Sanjay Rana	07 Apr 2016
NTS-17581-Y	Capt	Moirangthem Ranjan Meitei	07 Apr 2016
NTS-17583-K	Capt	Ram Chandra Bhattarai	07 Apr 2016
NTS-17586-X	Capt	Sajith CV	07 Apr 2016

ARMY MEDICAL CORPS

Capt to Maj

Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
MS-16737Y	Capt	Sandeep Gauthwal	07-07-2014
MS-16863L	Capt	Arjun Joshi	21-10-2015
MS-17233X	Capt	Razzakur Rahman	17-12-2014
MS-17405F	Capt	Yasaswi Khandavalli	01-11-2015
MS-17533Y	Capt	Rupak Kumar Singh	01-11-2015
MS-17654A	Capt	HM Kasi Viswanath	11-01-2016
MS-16937P	Capt	Febha Susan Varkey	16-03-2016

Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
MS-17031W	Capt	Priyank Augustya	29-06-2016
MS-17046Y	Capt	Rajesh Kumar	29-06-2016
MS-17398W	Capt	Kiran Kumar Devarshetty	01-11-2015
MS-17562N	Capt	Mohit Kataruka	01-07-2015

Surg Lt to Surg Lt Cdr

Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
MS-16992L (76172T)	Surg Lt	GK Sharath	21-09-2016
MS-17035M (76195W)	Surg Lt	Suman Singh	29-06-2016
MS-17064F (76205T)	Surg Lt	Parate Kiran kumar Dnyaneshwar	12-08-2016
MS-16838M (76120Z)	Surg Lt	Akshath G	27.09.2015

Flt Lt to Sqn Ldr

Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
MS-16830-A (AF-32055-S)	Flt Lt	Jethwa Jaydeep Pravinchandra	27-03-2015
MS-16724F (AF-31098-A)	Flt Lt	Abhinav Tiwari	26-06-2014
MS-16748L (AF-31408A)	Flt Lt	Bensy Stephen	30.07.2014

PERMANENT COMMISSION
ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

Lt to Capt

Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
NTR-16894-L	Lt	Rakesh Chander	09 Apr 2016
NTR-16895-N	Lt	Sanjeev Waghmore	09 Apr 2016
NTR-16896-W	Lt	Gulam Hussain Ansari	09 Apr 2016
NTR-16897-Y	Lt	Dhanish S	09 Apr 2016

SHORT SERVICE COMMISSION
ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

Lt to Capt

Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
NTS-17629-F	Lt	Radha Kant Sharma	09 Apr 2016
NTS-17630-W	Lt	Bibhudatta Sahoo	09 Apr 2016
NTS-17631-Y	Lt	Suhail Ahmad Dar	09 Apr 2016
NTS-17633-K	Lt	S Vigneshwaran	09 Apr 2016
NTS-17635-P	Lt	Mohd Iqbal Wani	09 Apr 2016
NTS-17636-X	Lt	Amit Singh	09 Apr 2016
NTS-17637-A	Lt	Pabon Bailung	09 Apr 2016
NTS-17638-H	Lt	Vikas Sharma	09 Apr 2016
NTS-17632- F	Lt	Anil Kumar Bhutia	09 Apr 2016

ARMY MEDICAL CORPS

To be Capt

Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
MS-17133M	Capt	Ashwin Valsan	24-08-2014
MS-17588H	Capt	Biman Lahiri	17-02-2016
MS-17589L	Capt	Nidheesh Mohan J	17-02-2016
MS-17621P	Capt	Ankit Upadhyay	17-02-2016
MS-17623A	Capt	Sanoj	24-02-2016
MS-17322W	Capt	Dhirendra Kumar Tiwari	03.03.2015
MS-17610H	Capt	Sumesh Menon	17.02.2016

Surg Sub Lt to Surg Lt

MS-17599P (76308A)	Surg Sub Lt	Monanshu Jaiswal	17-02-2016
MS-17578Y (76330A)	Surg Sub Lt	Handa Shivani Vijay	17-02-2016

B SRIDHAR
Brig
Dy DGAFMS (HR)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in

DOPGIPF— [PART I—SEC. 4]

LAZAR
SAGAYA
RAJ

Digitally signed
by LAZAR
SAGAYA RAJ
Date: 2017.07.15
12:44:57 +05'30'